

INTERMEDIATE EXAMINATION – 2020 (ANNUAL)

Sl. Code :- 220

I.Com.

Model Set

Accountancy (लेखाशास्त्र)

समय:- 3 घंटे 15 मिनट

Time:- 3 hours 15 minute

कुल प्रश्नों की संख्या: 95

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :-

**Instructions for the candidates :-**

1. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable.

2. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।

Figures in the right hand margin indicate full marks.

3. इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने तथा निर्देशों के अनुपालन के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।

15 minutes of extra time has been allotted for the candidate to read the questions and follow the instructions carefully.

4. यह प्रश्न-पत्र दो खण्डों में है, खण्ड-अ एवं खण्ड-ब।

This question paper is divided into section: **Section-A** and **Section-B**.

5. खण्ड-अ में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, जिनमें से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इनका उत्तर उपलब्ध कराये गये

OMR-शीट में दिये गये सही वृत्त को काले/नीले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर/तरल पदार्थ/ब्लेड/नाखून आदि का OMR शीट में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। यदि कोई परीक्षार्थी 50 प्रश्नों से अधिक उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों के उत्तर की ही जाँच होगी।

In **Section-A**, there are 60 objective type questions, each carrying 1 mark, out of which any 50 questions are to be answered. Darken the circle with black/blue ball pen against the correct option on OMR Sheet provided to you. Do not use Whitener/Liquid/Blade/Nail on OMR Sheet, otherwise the result will be treated as invalid. If any candidate answer more than 50 questions, then first 50 answers will be evaluated.

6. खण्ड-ब में 27 गैर-वस्तुनिष्ठ लघुउत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त 08 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 04 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 05 अंक निर्धारित हैं।

In **Section-B**, there are 27 **Non-objective short answer type** questions, out of which any 15 questions are to be answered. Each question carries 2 marks. Apart from this, there are 08 Long answer type questions, out-of which any 04 questions are to be answered. Each question carries 5 marks.

7. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल पूर्णतया वर्जित है।

Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

## **Section- A**

### **खण्ड-अ (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)**

प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए प्रश्नों के सही विकल्प को OMR-शीट पर चिह्नित करें।

किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें।

50 x 1=50

Question No.- 1 to 60 have four options, out of which only one is correct. You have to mark, your selected option, on the OMR-Sheet. Each question carries 1 (one) mark. Answer any 50 questions.

50 x 1=50

1. आय-व्यय खाता होता है –

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| A. व्यक्तिगत खाता | B. वास्तविक खाता     |
| C. नाममात्र खाता  | D. इनमें से कोई नहीं |

Income and Expenditure Account is -

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| A. Personal Account | B. Real Account  |
| C. Nominal Account  | D. None of these |

2. वसीयत को मानना चाहिए –

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| A. दायित्व | B. आयगत प्राप्ति     |
| C. आय      | D. इनमें से कोई नहीं |

Legacy should be treated as -

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| A. Liability | B. Revenue receipt |
| C. Income    | D. None of these   |

3. गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसम्पत्तियों के आधिक्य को कहते हैं –

A. पूँजी निधि

B. पूँजी

C. लाभ

D. शुद्ध लाभ

The excess of assets over liabilities in non-trading concerns is termed as -

A. Capital fund

B. Capital

C. Profit

D. Net-profit

4. एक गैर व्यापारिक संस्था के लिय मानदेय का भुगतान है –

A. आय

B. परिसम्पत्ति

C. व्यय

D. इनमें से कोई नहीं

For a non-trading concern, honorarium paid is -

A. An Income

B. An asset

C. An expense

D. None of these

5. यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो, तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है –

A. पूँजीगत प्राप्ति

B. आयगत आय

C. देयता

D. इनमें से कोई नहीं

Entrance fees, unless otherwise stated, is treated as -

A. Capital Receipt

B. Revenue income

C. Liability

D. None of these

6. निम्न में से कौन-सा लाभ का विनियोजन है –

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| A. ऋण पर ब्याज | B. पूँजी पर ब्याज |
| C. वेतन        | D. किराया         |

Which of the following is an appropriation of profit -

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| A. Interest on loan | B. Interest on capital |
| C. Salary           | D. Rent                |

7. जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है।

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| A. 6.5 महीने के लिये | B. 6 महीने के लिये  |
| C. 5.5 महीने के लिये | D. 12 महीने के लिये |

When time of withdrawals are not mentioned, interest on drawing is charged :-

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| A. For 6.5 months | B. For 6 months  |
| C. For 5.5 months | D. for 12 months |

8. साझेदारों की पूँजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं –

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| A. केवल पूँजी खाते | B. केवल चालू खाते     |
| C. दायित्व खाते    | D. पूँजी और चालू खाते |

Which accounts are opened when the capitals are fixed :-

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| A. Only capital account | B. Only current account        |
| C. Liability account    | D. Capital and current account |

9. साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदार हकदार नहीं है —

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| A. बेतन पाने का           | B. कमीशन पाने का |
| C. पूँजी पर ब्याज पाने का | D. उपर्युक्त सभी |

In the absence of partnership deed, partners are not entitled to receive -

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| A. Salaries            | B. commission       |
| C. Interest on capital | D. All of the above |

10. साझेदारों की पूँजी पर ब्याज है —

- |         |                      |
|---------|----------------------|
| A. व्यय | B. विनियोजन          |
| C. लाभ  | D. इनमें से कोई नहीं |

Interest on partner's capital is -

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| A. Expenditure | B. Appropriation |
| C. gain        | D. None of these |

11. साझेदारों के आहरण पर ब्याज है —

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| A. व्यवसाय के लिय हानि | B. व्यवसाय के लिय लाभ |
| C. साझेदारों को लाभ    | D. बैंक को हानि       |

Interest on drawing of the partner is a -

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| A. Loss to business   | B. Profit to business |
| C. Profit to partners | D. Loss to Bank       |

12. साझेदार का फर्म से संबंध होता है –

- A. स्वामी का
- B. एजेंट का
- C. स्वामी एवं एजेंट दोनों का
- D. प्रबंधक का

The relation of partner with the firm is that of -

- A. An owner
- B. An agent
- C. Both an owner & agent
- D. Manager

13. साझेदारों का दायित्व होता है

- A. सीमित
- B. असीमित
- C. साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित
- D. इनमें से कोई नहीं

Liabilities of partners is –

- A. Limited
- B. Unlimited
- C. Determined by the partnership Act
- D. None of these

14. साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदारी का लेखा करने पर होगा –

- A. वर्तमान साझेदार को लाभ
- B. वर्तमान साझेदार को हानि
- C. वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि
- D. इनमें से कोई नहीं

On reconstitution of a partnership firm, recording of an unrecorded liability will result in -

- A. Gain to the existing partners
- B. Loss to the existing partners
- C. Neither gain nor loss to the existing partners

D. None of these

15. पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है –

A- पुराने लाभ-हानि अनुपात में      B- नये लाभ-हानि अनुपात में  
C. समान अनुपात में      D. इनमें से कोई नहीं

The balance of Revaluation Account is transferred to old partners capital Accounts in their -

A. Old profit sharing ratio      B. New profit sharing ratio  
C. Equal Ratio      D. None of these

16. पूँजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए।

A. लाभ का विनियोजन      B. संपत्ति  
C. एक व्यय      D. इनमें से कोई नहीं

Generally, the interest on capital is considered as : -

A. Appropriation of profit      B. Asset  
C. Expense      D. None of these

17. एक सम्पत्ति जो काल्पनिक नहीं है परन्तु अमूर्त प्रकृति की है और उसका वसूली मूल्य होता है –

A. मशीन      B. भवन  
C. फर्नीचर      D. ख्याति

An asset which is not fictitious but intangible in nature, having realizable value is -

- A. Machine
- B. Building
- C. Furniture
- D. Goodwill

18. व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं -

- A. ख्याति
- B. अधि-लाभ
- C. अधिशेष
- D. असामान्य लाभ

The monetary value of reputation of the business is called -

- A. Goodwill
- B. Super-profit
- C. Surplus
- D. Abnormal profit

19. नये साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदारों द्वारा बांटी जाती है।

- A. त्याग अनुपात में
- B. पुराने अनुपात में
- C. नये अनुपात में
- D. बराबर अनुपात में

Share of Goodwill brought by new partner in cash is shared by old partner in -

- A. Sacrificing Ratio
- B. Old Ratio
- C. New Ratio
- D. Equally

20. पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है -

- A. लाभ  
B. हानि  
C. प्राप्ति  
D. व्यय

Excess of the credit side over the debit side of Revaluation A/C is -

- A. Profit  
B. Loss  
C. Gain  
D. Expense

21. नये साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किये गये चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है -

- A. प्रारंभिक मूल्य पर  
B. पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर  
C. वसूली योग्य मूल्य पर  
D. इनमें से कोई नहीं

Balance sheet prepared after new partnership agreement assets & liabilities are recorded at -

- A. Original Value  
B. Revalued figure  
C. At Realisable value  
D. None of these

22. निम्न में से कौन-सी संपत्ति एक नये साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः मूल्यांकित किया जाता है -

- A. रहतिया  
B. स्थायी संपत्तियाँ  
C. निवेश  
D. ख्याति

Which of the following asset is compulsorily revalued at the time of admission of a new partner -

- A. Stock  
B. Fixed Asset

### C. Investment

### D. Goodwill

23. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, ख्याति की पुरी राशि किसके पूँजी खाते में क्रेडिट की जा सकती है –

- A. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के
- B. शेष साझेदारों के
- C. सभी साझेदारों के
- D. इनमें से कोई नहीं

On the retirement of a partner, Full amount of goodwill may be credited to the capital account of -

- A. Retiring Partners
- B. Remaining Partners
- C. All Partners
- D. None of these

24. अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ-हानि को वहन किया जाता है—

- A. बचे हुए साझेदारों द्वारा
- B. सभी साझेदारों द्वारा
- C. नये साझेदारों द्वारा
- D. इनमें से कोई नहीं

Profit and loss on revaluation at the time of retirement is shared by-

- A. Remaining partners
- B. All partners

C. New partners

D. None of these

25. मृतक साझेदार को देय राशि चुकायी जाती है –

A. पिता को

B. दोस्त को

C. पत्नी को

D. कानूनी उत्तराधिकारी का

The amount due to the deceased partner is paid to -

A. Father

B. Friend

C. Wife

D. Legal heirs

26. जब गैर-अभिलेखित परिसम्पति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शायेंगे –

A. वसूली खाते के नाम पक्ष

B. बैंक खाते के नाम पक्ष में

C. वसूली खाते के जमा पक्ष में

D. बैंक खाते के जमा पक्ष में

Unrecorded assets when taken over by a partner are shown in -

A. Debit side of Realisation A/c

B. Debit side of Bank A/C

C. Credit side of Realisation A/c

D. Credit side of Bank A/c

27. सम्पत्तियों के विक्रय से वसूल हुई रकम

A. वसूली खाते के डेबिट पक्ष में

B. वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में

C. चिट्ठे के दायित्व पक्ष में

D. चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में

Amount realized from sale of assets is recorded in -

A. Debit side of Realisation A/C

B. Credit side of Realisation A/C

C. Liability side of Balance sheet

D. Assets side of Balance sheet

28. फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन-सा खाता बनाना चाहिए ?

A. वसूली खाता

B. साझेदारों के पूँजी खाते

C. रोकड़ या बैंक खाता

D. साझेदार का ऋण खाता

On firm's dissolution which one of the following account should be prepared at the last?

A. Realisation A/C

B. Partner's capital A/c

C. Cash or Bank A/C

D. Partner's loan A/c

29. फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है –

A. बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से

B. फर्म के सभी बाह्य दायित्व से

C. संपत्ति के बिक्रय से प्राप्त राशि से

D. किसी साझेदार द्वारा ली गई किसी संपत्ति से

On dissolution of a firm, realization account is debited with -

A. All assets to be realized

B. All outside liabilities of the firm

C. Cash received on sale of assets

D. Any assets taken over by one of the partners.

30. फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है

- A. साझेदारों के पूँजी खाते में                      B. वसूली खाते में  
C. रोकड़ खाते में                                      D. साझेदारों के ऋण खाते में

At the time of dissolution of firm, fictitious assets are transferred to

- A. Capital accounts of partners              B. Realisation account  
C. Cash account                                      D. Partners loan A/c

31. एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने ₹0 1500 समापन व्ययों का भुगतान कर दिया। कौन-सा खाता डेबिट होगा ?

- A. रोकड़ खाता                                      B. वसूली खाता  
C. साझेदार का पूँजी खाता                      D. लाभ-हानि खाता

On dissolution of a firm, a partner paid Rs. 1500 for firm's realization expenses. Which account will be debited -

- A. Cash Account                                      B. Realisation Account  
C. Capital account of partner                      D. Profit and Loss A/C

32. निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है -

- A. रोकड़ खाते के शेष को                      B. लाभ-हानि के शेष को  
C. लेनदारों को                                      D. संचयों को।

Which of the following is transferred to Realisation account -

- A. Balance of cash account                      B. Balance of P/L account

C. Creditors

D. Reserves

33. फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है?

A. रोकड़ खाता

B. साझेदारों के पूँजी खाते।

C. वसूली खाता

D. इनमें से कोई नहीं

On dissolution of firm, loss on realization account is debited to which account ?

A. Cash Account

B. Partner's capital account

C. Realisation account

D. None of these

34. समता अंशधारी कम्पनी के होते हैं –

A. लेनदार

B. स्वामी

C. ग्राहक

D. इनमें से कोई नहीं

Equity shareholders of the company are :

A. Creditors

B. Owners

C. Customers

D. None of these

35. जब्त किये गये अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है –

A. लाभ-हानि खाते में

B. पूँजी संचय खाते में

C. सामान्य संचय खाते में

D. इनमें से कोई नहीं

Balance of Forfeited shares account after re-issue of forfeited shares is transferred to -

A. Profit & loss A/C

B. Capital Reserve A/C

C. General Reserve A/C

D. None of these

36. अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है?

A. सम्पत्ति

B. दायित्व

C. दोनों

D. इनमें से कोई नहीं

Premium on issue of shares is shown on which side of the Balance sheet ?

A. Assets

B. Liabilities

C. Both

D. None of these

37. टेबल 'F' के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है –

A. 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष

B. 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष

C. 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

D. इनमें से कोई नहीं

As per Table 'F' the maximum rate of interest on "calls in advance" is -

A. 8% p.a.

B. 12 % p.a.

C. 5 % p.a.

D. None of these

38. इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूँजी कौन-सी है ?

A. प्रदत्त पूँजी

B. अयाचित पूँजी

C. अधिकृत पूँजी

D. निर्गमित पूँजी

Which one of the following is the registered capital of the company?

- A. Paid-up capital
- B. Uncalled up capital
- C. Authorised
- D. Issued Capital

39. अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन-सा प्रलेख निर्गत किया जाता है –

- A. प्रविवरण पत्र
- B. पार्षद अन्तर्नियम
- C. पार्षद सीमा नियम
- D. ये सभी

Which documents are issued before the issue of shares ?

- A. Prospectus
- B. Articles of Association
- C. Memorandum of Association
- D. All of these

40. “प्रतिभूति प्रीमियम” खाते को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है ?

- A. संचय तथा आधिक्य
- B. विविध व्यय
- C. चालू दायित्व
- D. अंश पूँजी

“Security Premium” is shown under which head in the Balance-sheet?

- A. Reserve and surplus
- B. Miscellaneous expenditure
- C. Current liabilities
- D. Share capital

41. कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाली पूँजी कहलाती है –

- A. अधिकृत पूँजी
- B. निर्गमित पूँजी

C. प्रार्यित पूँजी

D. चुकता पूँजी

Capital included in the liability of a company is called -

A. Authorised capital

B. Issued capital

C. Subsribed capital

D. Paid-up capital

42. यदि अंशों के पुनर्निगमन पर हानि, जब्त की गई राशि से कम हो तो 'अधिशेष' या लाभ हस्तांतरित किया जाता है -

A. पूँजी संचय में

B. आयगत संचय में

C. लाभ-हानि खाता में

D. इनमें से कोई नहीं

If the loss on re-issue of shares is less than the amount forfeited, the surplus or profit is transferred to -

A. Capital Reserve

B. Revenue Reserve

C. Profit & Loss A/C

D. None of these

43. ऋणपत्रों पर ब्याज होता है -

A. 12 प्रतिशत वार्षिक

B. निश्चित दर

C. 20 प्रतिशत वार्षिक

D. 6 प्रतिशत वार्षिक

Debenture carried interest at -

A. 12 % p.a.

B. Fixed Rate

C. 20 % p.a.

D. 6 % p.a.

44. कम्पनी के लिय अधि-मूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गमन है :-

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| A. आयगत प्रप्ति | B. लाभ      |
| C. पूँजीगत लाभ  | D. सम्पत्ति |

For a company issue of debenture at premium is :

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| A. Revenue receipt | B. Profit |
| C. Capital gain    | D. Asset  |

45. "ऋणपत्रों के निर्गमन पर अधि-लाभ" को आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है –

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| A. संपत्ति पक्ष में | B. दायित्व पक्ष में  |
| C. दोनों पक्ष में   | D. इनमें से कोई नहीं |

"Premium on issue of Debenture" is shown in the Balance sheet on -

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| A. Asset side | B. Liabilities side |
| C. Both side  | D. None of these    |

46. ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम है –

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| A. व्यक्तिगत खाता | B. वास्तविक खाता |
| C. नाममात्र खाता  | D. उचन्ती खाता   |

Premium on redemption of debenture is a -

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| A. Personal A/C | B. Real A/C     |
| C. Nominal A/C  | D. Suspense A/C |

47. स्थिति विवरण है –

- |         |          |
|---------|----------|
| A. खाता | B. विवरण |
|---------|----------|

C. A और B दोनों

D. उपरोक्त सभी

Balance-sheet is a -

A. Account

B. Statement

C. A & B both

D. All of the above

48. लाभ एवं हानि विवरण को भी कहते हैं -

A. परिचालन लाभ

B. आर्थिक चिट्ठा

C. आय विवरण

D. व्यापार खाता

Statement of profit and loss is also called -

A. Operating profit

B. Balance sheet

C. Income statement

D. Trading Account

49. पेटेन्ट्स एवं कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं -

A. चालू सम्पत्तिया

B. तरल सम्पत्तिया

C. अमूर्त सम्पत्तियां

D. इनमें से कोई नहीं

Patents and copyrights fall under which category -

A. Current Assets

B. Liquid Assets

C. Intangible Assets

D. None of these

50. संचालन अनुपात है -

A. लाभदायकता अनुपात

B. क्रियाशीलता अनुपात

C. शोधन क्षमता अनुपात

D. इनमें से कोई नहीं

Operating ratio is -

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| A. Profitability Ratio | B. Activity Ratio |
| C. Solvency Ratio      | D. None of these  |

51. आन्तरिक एवं बाह्य स्वामित्व के मध्य एक संतोषजनक अनुपात है -

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 1 : 1 | B. 2 : 1 |
| C. 3 : 1 | D. 4 : 1 |

The satisfactory ratio between internal and external equity is -

- |          |          |
|----------|----------|
| A. 1 : 1 | B. 2 : 1 |
| C. 3 : 1 | D. 4 : 1 |

52. तरल संपत्तियों में शामिल होता है -

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| A. प्राप्त विपत्र | B. देनदार        |
| C. रोकड़          | D. उपर्युक्त सभी |

Liquid Assets include -

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| A. Bills receivable | B. Debtors      |
| C. Cash             | D. All of above |

53. निम्न में से कौन-सा गैर संचालन व्यय है -

- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| A. किराया | B. बिक्री व्यय         |
| C. मजदूरी | D. मशीन विक्रय पर हानि |

Which of the following is non-operating expense -

- |         |                    |
|---------|--------------------|
| A. Rent | B. Selling expense |
|---------|--------------------|

C. Wage

D. Loss on sale of machine

54. कौन-सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है ?

A. भूमि का क्रय

B. ऋणपत्रों का निर्गमन

C. समता अंशों के निर्गमन से प्राप्ति

D. नकद बिक्री

Which activity comes under operating activity ?

A. Purchase of Land

B. Issue of debenture

C. Proceeds from issue of equity shares

D. Cash sales

55. निम्न में से कौन एक गैर-रोकड़ मद नहीं है ?

A. देनदारों में कमी

B. ऋणपत्रों का निर्गमन

C. लेनदारों में कमी

D. इनमें से कोई नहीं

Which of the following is not a non cash item -

A. Decrease in debtors

B. Issue of debenture

C. Decrease in creditors

D. None of these

56. इनमें से कौन-सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है -

A. समता अंशों का निर्गमन

B. नकद बिक्री

C. बैंक अधिविक्रय

D. ऋणपत्रों का क्रय

Which of the following activity comes under Financial activities -

A. Issue of equity shares

B. Cash sales

C. Bank overdraft

D. Purchase of debentures

57. नकद बिक्री है

A. परिचालन क्रिया

B. विनियोजन क्रिया

C. वित्तीय क्रिया

D. इनमें से कोई नहीं

Cash sales is -

A. Operating Activity

B. Investing activity

C. Financing activity

D. None of these

58. निम्न में से कौन-सा रोकड़ अन्तर्बाह नहीं है —

A. स्थायी संपत्ति की बिक्री

B. स्थायी संपत्ति का क्रय

C. ऋणपत्रों का निर्गमन

D. माल का नकद विक्रय

Which of the following is not a cash inflow -

A. Sale of Fixed asset

B. Purchase of fixed asset

C. Issue of debenture

D. Sale of goods for cash

59. स्थायी संपत्तियों में शामिल होता है —

A. रोकड़

B. मशीनरी

C. देनदार

D. पूर्वदत्त व्यय

Fixed Assets include -

A. Cash

B. Machinery

C. Debtors

D. Prepaid expense

60. लेनदार आवर्त अनुपात में क्या शामिल किया जाता है –

A. कुल उधार क्रय

B. कुल उधार बिक्री

C. कुल नगद बिक्री

D. कुल नगद क्रय

What does creditor Turnover ratio take into account

A. Total credit purchase

B. Total credit sales

C. Total cash sales

D. Total cash purchase

**खण्ड-ब / Section-B**

**गैर-वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Non-Objective Type Questions**

**लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions**

प्रश्न संख्या 1 से 27 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। (15x2=30)

Question no. 1 to 27 are Short answer type questions. Answer any 15 question. Each question carries 2 marks. (15x2=30)

1. वसूली खाते की दो उद्देश्य बतायें।

State two objectives of Realisation Account.

2. रोकड़ प्रवाह विवरण की दो विशेषतायें बतायें।

Give two Features of cash flow statement

3. अनुपात विश्लेषण क्या है ?

What is Ratio-analysis.

4. प्राप्ति एवं भुगतान खाते की दो विशेषतायें लिखिए।

Give two features of Receipt & payment A/C.

5. कंपनी के दो दोष बताइये।

Mention two demerits of a company.

6. फर्म के समापन के कारणों का वर्णन करें।

Explain the causes of dissolution of firm.

7. ख्याति के मूल्यांकन की दो विधियाँ बतायें।

State two methods of valuation of Goodwill

8. साझेदारी की दो गुण बतायें।

State two merits of partnership.

9. समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर बतायें।

Distinguish between equity share & preference share.

10. अलामकारी संस्था के उद्देश्य को बतायें।

State the objective of not-for-profit organization.

11. शोधनीय ऋण—पत्र से आप क्या समझते हैं ?

What do you mean by redeemable debentures?

12. ऋण—पत्र क्या है ?

What is debenture ?

13. पूँजी संचय का वर्णन करें।

Explain capital Reserve.

14. विनियोग क्रिया से रोकड़ प्रवाह क्या है ?

What is cash Flow from investing activities ?

15. पुनर्मूल्यांकन खाता की दो विशेषतायें बतायें।

State two features of Revaluation account.

16. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं ?

What do you mean by analysis of financial statement?

17. समान आकार वाले विवरणों के क्या उद्देश्य है ?

What are the objectives of common-size statement.

18. देनदार आवर्त अनुपात की सोदाहरण वर्णन करें।

Explain debtors turnover ratio with examples.

19. ऋण-समता अनुपात का उद्देश्य बताइये।

State the objective of Debt-Equity ratio.

20. ऋणपत्रों के "लाभ में से शोधन" का अर्थ बताइये।

State the meaning of "Redemption of debentures" out of profits.

21. फर्म का ऋण और साझेदारों के ऋण में अंतर बताइये।

Distinguish between firm's Debt and partners debts.

22. गुप्त ख्याति क्या है ?

What is Hidden Goodwill ?

23. अंश एवं स्टॉक में अंतर बताइये।

Distinguish between share and stock.

24. ख्याति के संदर्भ में लेखांकन मानक-26 का अनुप्रयोग बतावें।

State the application of Accounting Standard-26 with reference to goodwill.

25. कोष आधारित लेखांकन की दो विशेषताओं को बताइये।

State two features of Fund-based Accounting.

26. P, Q तथा R साझेदार हैं जो लाभों को 3 : 2 : 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उन्होंने S को  $1/6$  भाग के लिये शामिल किया। यह तय होता है कि R अपना हिस्सा कायम रखेगा। नया अनुपात तथा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए।

P, Q and R partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admit S for  $1/6^{\text{th}}$  share. It is agreed that R would retain his original share. Calculate the new ratio and sacrificing ratio.

27. आय-व्यय खाते की दो विशेषतायें बतायें।

State two features of Income and Expenditure Account.

### **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)**

प्रश्न संख्या 28 से 35 तक दीर्घ उत्तरीय कोटि के प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। (4x5=20)

Question no. 28 to 35 are Long answer type questions. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks. (4x5=20)

28. एक फर्म के बिघटन पर निम्नलिखित लेन-देनों के लिये क्या जर्नल-प्रविष्टियाँ की जायेगी जबकि विभिन्न संपत्तियों (रोकड़ को छोड़कर) एवं तीसरे पक्ष की देयताओं को वसूली खाता में हस्तांतरित किया जा चुका है –

- i. साझेदार A ने 50 प्रतिशत रहतिये को 25 प्रतिशत की कटौती पर लिया (पुस्तक मूल्य रु0 20000)
- ii. शेष रहतिये को 10 प्रतिशत की हानि पर बेचा गया।

- iii. फर्म के एक कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के लिये रु0 40000 चुकाया गया।
- iv. रु0 5000 की अलिखित संपत्ति को B ने 4000 रु0 पर लिया।
- v. साझेदार A ने श्रीमति 'A- के रु0 5000 के ऋण को भुगतान हेतु लिया।

What journal entries would be passed for the following transactions on the dissolution of a firm, after various assets (other than cash) and third parties liabilities have been transferred to Realisation Account.

- i. A, a partner took over 50% of the stock at a discount of 25% (Book value of stock Rs. 20000)
  - ii. Balance of stock was sold at a loss of 10%
  - iii. Compensation to an employee paid by the firm amounted to Rs. 40000.
  - iv. There was an unrecorded assets of Rs. 5000 which was taken over by B, a partner of Rs. 4000.
  - v. A, a partner, undertook to pay Mrs. A loan of Rs. 5000.
29. रोकड़-प्रवाह विवरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

Explain the importance of cash flow statement.

30. निम्न सूचना से 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त वर्ष के लिय आय तथा व्यय खाते में प्रभारित किये जाने वाले वेतन की राशि की गणना कीजिए –
- i. वर्ष के दौरान दिया गया वेतन रु0 30000
  - ii. 31 दिसम्बर, 2017 को अदत वेतन रु0 1000
  - iii. 31 दिसम्बर, 2018 को अदत वेतन रु0 1500

iv. 31 दिसम्बर, 2018 को पूर्वदत्त वेतन

रु0 2000

From the following information, calculate the amount of salaries chargeable to Income and Expenditure account for the year ended 31 December, 2018 –

- |   |           |
|---|-----------|
| i. Salaries paid during year                    | Rs. 30000 |
| ii. Outstanding salaries on 31 December, 2017   | Rs. 1000  |
| iii. Outstanding salaries on 31 December, 2018  | Rs. 1500  |
| iv. Salary paid in advance on 31 December, 2018 | Rs. 2000  |

31. लाभ न कमाने वाली संस्था से क्या आशय है? लाभ न कमाने वाली संस्था से संबंधित चार मदों को लिखिए।

What is meant by not-for-profit organisation? Write four items relating to not for profit organisation.

32. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति के लेखांकन व्यवहार को समझाइए।

Explain Accounting Treatment of Goodwill on retirement of a partner.

33. भारत लि0 ने बिहार कारपोरेशन से रु0 418000 की सम्पतियाँ क्रय की और क्रय प्रतिफल के भुगतान स्वरूप रु0 100 वाले पूर्णदत्त समता अंश निर्गमित किए। भारत लिमिटेड की पुस्तकों में यह मानते हुए रोजनामचा प्रविष्टियाँ दिखाइए कि अंशों का निर्गमन (i) सम मूल्य पर (ii) 10 प्रतिशत कटौती पर तथा (iii) 10 प्रतिशत प्रीमियम पर किया गया था।

Bharat Ltd. Purchased assets from Bihar corporation worth Rs. 418000 and issued equity share of Rs. 100 each fully paid as

purchase consideration. Pass necessary journal entries in the books of Bharat Ltd as shares are issued (i) at par (ii) at discount of 10% (iii) at premium of 10%.

34. एक फर्म का चालू अनुपात 2.5 : 1 है। इसका तरल अनुपात 1.5 : 1 है। यदि चालू दायित्व 60000 हो तो चालू परिसम्पतियाँ एवं स्टॉक की राशि की गणना कीजिए।

A firm current Ratio is 2.5 : 1. Its liquid Ratio is 1.5 : 1. If current liabilities are Rs. 60000. Then, calculate the amount of current Assets and stock.

35. वित्तीय विवरणों से आप क्या समझते हैं? इसकी क्या उपयोगिता है ?

What do you mean by Financial statement? What are its uses?